



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II — खण्ड 3 — उप-खण्ड (i)

PART II — Section 3 — Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 327]

नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 8, 1978/कार्तिक 17, 1900

No. 327] NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 8, 1978/KARTIKA 17, 1900

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

गृह मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग)

नई दिल्ली, 8 नवम्बर, 1978

अधीनस्थता

सा. का. नि. 581(अ).—अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, संबंधित राज्य सरकारों से परामर्श करने के पश्चात् भारतीय वन सेवा (परिबीक्षा) नियम, 1968 में संशोधन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1.(1) इन नियमों का नाम भारतीय वन सेवा (परिबीक्षा) संशोधन नियम, 1978 है।

(2) ये नियम सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख के प्रस्तावित हैं।

2 भारतीय वन सेवा (परिबीक्षा) नियम 1968 के नियम 6 में उप-नियम (2) के पश्चात् निम्नलिखित उप-नियम जोड़े दिए जायगा, अर्थात् :—

“(3) नियम 3 के उप-नियम (3) में उल्लिखित प्रत्येक उस परीक्षाधीन को, जिसने ऐसी नियुक्ति पर 52 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है तथा जिसने उक्त सेवा में अपनी नियुक्ति से पूर्व कोई प्रशिक्षण पहले नहीं लिया है, लाल

बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, वन अनुसंधान संस्थान तथा कालेज, राज्य प्रशिक्षण संस्थाओं और देश में स्थापित अन्य प्रशिक्षण संस्थाओं में, केन्द्रीय सरकार द्वारा आवश्यक समझी गई अवधि के लिए ऐसा प्रशिक्षण लेना होगा।

(4) नियम 7 से 9 के उपबन्ध उप-नियम (3) में उल्लिखित किसी परीक्षाधीन पर लागू नहीं होंगे।”

[संख्या 16018/1/77-अ. भा. सं. (4)]

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(Department of Personnel and Administrative Reforms)

New Delhi, the 8th November, 1978

NOTIFICATION

G.S.R. 531(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the All India Services Act, 1951 (61 of 1951) the Central Government, after consultation with the Governments of the State concerned, hereby makes the following rules further to amend the Indian Forest Service (Probation) Rules, 1968, namely :—

1. (1) These rules may be called the Indian Forest Service (Probation) Amendment Rules, 1978.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In rule 6 of the Indian Forest Service (Probation) Rules, 1968, after sub-rule (2), the following sub-rules shall be inserted namely :—

"(3) Every probationer referred to in sub-rule (3) of rule 3 who has not attained the age of 52 years on such appointment and who has not already undergone any training before his appointment to the Service shall undergo such training in the Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration, the Forest Research Institute and Colleges, the State Training Institutions and other established training institutions in the country and for such period as the Central Government may consider necessary.

(4) The provisions of rules 7 to 9 shall not apply to a probationer referred to in sub-rule (3)."

[No. 16019/1/77-AIS(IV)]

सा. का. नि. 532(अ).—भारतीय वन सेवा (भर्ती) नियम 1966 के नियम 8 के उप नियम (1) के साथ पठित अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम, 1951 (1951 का 81) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार सम्बन्धित राज्य सरकारों तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करने के पश्चात्, भारतीय वन सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1966 में आगे संशोधन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन विनियमों का नाम भारतीय वन सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) तृतीय संशोधन विनियम, 1978 है।

(2) ये नियम सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख के प्रवृत्त होंगे।

2. भारतीय वन सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1966 के विनियम 7 में, उप-विनियम (4) के पश्चात् निम्नलिखित उप-विनियम जोड़ दिया जाएगा, अर्थात् :—

"(5) चयन सूची में सम्मिलित किए गए प्रत्येक उस व्यक्ति के, जिसने ऐसी नियुक्ति पर 52 वर्ष की आयु पूरी नहीं की

है और जिसने उक्त सेवा में अपनी नियुक्ति से पूर्व कोई प्रशिक्षण पहले नहीं लिया है, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, वन अनुसंधान संस्थान तथा कालेज राज्य प्रशिक्षण संस्थाओं और देश में स्थापित अन्य प्रशिक्षण संस्थाओं में केन्द्रीय सरकार द्वारा आवश्यक समझी जाने वाली अधिष्ठ के लिए ऐसा प्रशिक्षण लेना होगा।"

[संख्या 16019/1/77-अ. भा. से. (4)क]

आर. एल. अग्रवाल, अवर सचिव

G.S.R. 532(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the All India Services Act, 1951 (61 of 1951) read with sub-rule (1) of rule 8 of the Indian Forest Service (Recruitment) Rules, 1966, the Central Government, after consultation with the Government of the States concerned and the Union Public Service Commission hereby makes the following regulations further to amend the Indian Forest Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1966, namely :—

1. (1) These regulations may be called the Indian Forest Service (Appointment by Promotion) Third Amendment Regulations, 1978.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In regulation 7 of the Indian Forest Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1966, after sub-regulation (4), the following sub-regulation shall be inserted namely :—

"(5) Every person included in the Select List who has not attained the age of 52 years on such appointment and who has not already undergone any training before his appointment to the Service shall, undergo such training at the Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration, the Forest Research Institute and Colleges, the State Training Institutions and other established training institutions in the country and for such period as the Central Government may consider necessary".

[No. 16019/1/77-AIS(IV)-A]

R. L. AGGARWAL, Under Secy.